



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27 |

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2001/पौष 29, 1922

No. 27 |

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2001/PAUSA 29, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

( पत्तन पक्ष )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 27 ( अ ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित, तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

तूतुक्कुडि पत्तन न्यास

तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 2000

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 124 के अधीन, तूतुक्कुडि पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1979 को आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

( 1 ) ( i ) ये विनियम, तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 2001 कहे जाएंगे।

( ii ) ये सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

( 2 ) तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1979 की अनुसूची में :—

क्रम सं. 39 की विद्यमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जानी चाहिए :—

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	वर्गीकरण	सीधी भर्ती के लिए निम्न एवं उच्च आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	नर्स	13	रु. 2250-85-2930-100-4430	श्रेणी-III	21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच	<b>अनिवार्य :</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग (बी.एस.सी., नर्सिंग) में उपाधि। नर्सिंग काउन्सिल के एक सदस्य के रूप में पंजीकृत की जानी चाहिए। <b>वांछनीय :</b> विख्यात अस्पताल/संस्थान में नर्स के रूप में अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु, शिक्षा और अन्य अर्हताएं, पदोन्नति और अन्य विभागों में समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	भर्ती की पद्धति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती में और भर्ती की विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति/रिक्तियों का अन्य प्रतिशत	क्या पद चयन है या गैर-चयन (केवल पदोन्नति के लिए)	पदोन्नति या स्थानांतरण के मामले में संवर्ग जिसमें पदोन्नति या स्थानांतरण किया जाएगा	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

[फा. सं. पी. आर. 12012/27/2000-पीई-1]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** तूतुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 1979, भारत के राजपत्र, असाधारण के सा.का.नि. सं. 234(अ), दिनांक 16 मार्च, 1979 में प्रकाशित किए गए थे और निम्न दिए गए अनुसार बाद में संशोधित किए गए थे :—

1. सा.का. नि. 549(अ), दिनांक 30 जुलाई, 1984
2. सा.का. नि. 808(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1987
3. सा.का. नि. 848(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1989
4. सा.का. नि. 1062(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1989
5. सा.का. नि. 486(अ), दिनांक 11 मई, 1992
6. सा.का. नि. 648(अ), दिनांक 29 जून, 1992
7. सा.का. नि. 60(अ), दिनांक 10 फरवरी, 1993
8. सा.का. नि. 346(अ), दिनांक 30 मार्च, 1993
9. सा.का. नि. 818(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 1994
10. सा.का. नि. 834(अ), दिनांक 2 दिसम्बर, 1994
11. सा.का. नि. 422(अ), दिनांक 26 मई, 1995
12. सा.का. नि. 157(अ), दिनांक 19 मार्च, 1997
13. सा.का. नि. 163(अ), दिनांक 19 मार्च, 1997
14. सा.का. नि. 312(अ), दिनांक 5 जून, 1997

- 15 सा.का. नि. 372(अ), दिनांक 8 जुलाई, 1997
- 16 सा.का. नि. 132(अ), दिनांक 10 मार्च, 1998
- 17 सा.का. नि. 589(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1998
- 18 सा.का. नि. 276(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1999
- 19 सा.का. नि. 831(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1999
- 20 सा.का. नि. 241(अ), दिनांक 10 मार्च, 2000
- 21 सा.का. नि. 242(अ), दिनांक 10 मार्च, 2000
- 22 सा.का. नि. 326(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2000
- 23 सा.का. नि. 509(अ), दिनांक 31 मई, 2000
- 24 सा.का. नि. 510(अ), दिनांक 31 मई, 2000
- 25 सा.का. नि. 739(अ), दिनांक 22 सितम्बर, 2000
- 26 सा.का. नि. 740(अ), दिनांक 22 सितम्बर, 2000

## MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2001

**G.S.R. 27(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 2001 made by the Board of Trustees for the Port of Tuticorin Port Trust and set out in the schedule annexed to this notification.

2 The said Regulations shall come in to force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette

### SCHEDULE

#### TUTICORIN PORT TRUST

#### TUTICORIN PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 2000

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Tuticorin Port hereby makes the following Regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations 1979, under Section 124, *ibid*, namely :—

(1) (i) These Regulations may be called the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2001.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

(2) In the Schedule to the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1979 —

For the existing entries in Sl. No. 39, the following entries shall be substituted—

Sl No	Name of the post	Number of posts	Scale of Pay	Classification	Age limits lower and upper for direct recruits	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	Nurse	13	Rs. 2250-85-2930-100-4430	Class III	Between 21 and 30 years	<b>Essential :</b> A degree in Nursing (B. Sc., Nursing) from a recognised University. Should have registered as a member of the Nursing Council. <b>Desirable :</b> Experience as Nurse in reputed Hospital/institution.

Whether age and educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and persons holding analogous posts in another Department and deputationists	Method of recruitment whether by promotion transfer, deputation or direct recruitment and percentage of vacancies to be filled by different methods of recruitment	Whether post is a selection post or non-selection post (for promotion only)	In case of promotion or transfer cadres from which promotion or transfer shall be made	Prescribed period of probation
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	By Direct Recruitment	Not applicable	Not applicable	Two years

[F No PR-12012/27/2000-PE-I]

K V RAO, Jt Secy

**FOOT NOTE:—**The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1979, were published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR No 234 (E) dated the 16th March, 1979 and subsequently amended vide —

- (i) GSR 549 (E), dated the 30th July, 1984
- (ii) GSR 808 (E), dated the 21st September 1987
- (iii) GSR 848 (E), dated the 20th September 1989
- (iv) GSR 1062 (E), dated the 22nd December, 1989
- (v) GSR 486 (E) dated the 11th May 1992
- (vi) GSR 648 (E) dated the 29th June 1992
- (vii) GSR 60 (E), dated the 10th February, 1993
- (viii) GSR 346 (E), dated the 30th March, 1993
- (ix) GSR 818 (E) dated the 17th November, 1994
- (x) GSR 834 (E), dated the 2nd December, 1994
- (xi) GSR 422 (E) dated the 26th May 1995
- (xii) GSR 157 (E) dated the 19th March, 1997
- (xiii) GSR 163 (E) dated the 19th March, 1997
- (xiv) GSR 312 (E) dated the 5th June, 1997
- (xv) GSR 372 (E), dated the 8th July 1997
- (xvi) GSR 132 (E) dated the 10th March, 1998
- (xvii) GSR 589 (E), dated the 22nd September, 1998
- (xviii) GSR 276 (E), dated the 20th April, 1999
- (xix) GSR 831 (E) dated the 29th December, 1999
- (xx) GSR 241 (E), dated the 10th March 2000
- (xxi) GSR 242 (E) dated the 10th March 2000
- (xxii) GSR 326 (E) dated the 10th April 2000
- (xxiii) GSR 509 (E) dated the 31st May 2000
- (xxiv) GSR 510 (E) dated the 31st May, 2000
- (xxv) GSR 739 (E) dated the 22nd September 2000
- (xxvi) GSR 740 (E), dated the 22nd September, 2000